

# **SHRI GANG INDUSTRIES AND ALLIED PRODUCTS LIMITED**

**Corporate office:** F-32/3, Okhla Industrial Area, Phase- II, New Delhi- 110020

**Regd Off & Works:** Plot No B-2/6, B-2/7, UPSIDC Industrial Area- Phase IV, Sandila, Distt Hardoi, U.P.-241204

**Sikandrabad Works:** A-26, UPSIDC Industrial Area, Sikandrabad, Uttar Pradesh-203205

**E. id:-**secretarial@shrigangindustries.com **website:-**www.shrigangindustries.com **Tel No:** 011-42524454

---

**November 09, 2023**

**To,  
The Executive Director  
BSE Limited  
Floor 25, P J Towers  
Dalal Street  
Mumbai-400001**

**Scrip Code: 523309**

**Sub: Intimation of the publication of extract of Un-Audited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2023.**

Dear Sir/ Ma'am

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of extract of Un-Audited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2023 published in today's edition of the following newspapers:

- 1. The Financial Express (English)**
- 2. Jansatta (Hindi)**

Kindly take note of the same and acknowledge the receipt.

**Thanking you  
Yours truly,**

**For Shri Gang Industries and Allied Products Limited**

**Kanishka Jain  
(Company Secretary and Compliance Officer)**

**Encl.: a/a**



STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30<sup>TH</sup> SEPTEMBER, 2023

S. No.	Particulars	Rs. in Million except Shares and EPS				
		Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended
		30.09.2023	30.06.2023	30.09.2023	30.09.2023	31.03.2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Revenue from operations	1,712.80	1,545.07	1,278.89	3,257.86	2,389.56
2	Profit / (loss) before exceptional items and tax (III-IV)	395.70	293.68	230.10	689.39	387.13
3	Profit / (loss) before tax (V-VI)	395.70	293.68	230.10	689.39	387.13
4	Total tax (VIII)	119.68	103.32	68.11	223.00	115.17
5	Net Profit/(loss) after tax (VII-VIII)	276.03	190.36	161.99	466.39	271.95
6	Total comprehensive income for the period (IX+X) (Comprising Profit (Loss) and Other comprehensive income for the period)	276.03	190.36	162.52	466.39	272.16
7	Earnings Per Share (Rs.10 each) (Not annualised except for the year ended 31 March 2023)	3.80	2.91	2.48	6.42	4.15
	Diluted	3.80	2.91	2.48	6.42	4.15

**NOTES:-**

- The above Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 7<sup>th</sup> November, 2023.
- The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Financial Results is available on the website of BSE at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), [NSE at www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and on the Company's website at [www.yatharthhospitals.com/investors](http://www.yatharthhospitals.com/investors).
- The above results of the Company have been limited reviewed by the Statutory Auditors and they have issued an unqualified opinion on the same.
- Previous figures have been regrouped/ rearranged/ reclassified, wherever necessary.

For and on behalf of  
Yatharth Hospital & Trauma Care Services Ltd  
Dr. Ajay Kumar Tyagi  
Chairman and whole-time Director  
DIN: 01792886

Place : Noida  
Date : 07.11.2023

## दुर्गेश मर्चेन्ट्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : जी-251, ग्राऊन्ड फ्लोर, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-110024,  
CIN: L65923DL1984PLC248322;  
ई-मेल: [durgeshmerchants@gmail.com](mailto:durgeshmerchants@gmail.com); वेबसाइट: [www.durgeshmerchantsltd.com](http://www.durgeshmerchantsltd.com); दूरभाष: 011-68888824

30 सितम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही एवं अर्धवार्षिक के एकीकृत अनअंकेषित वित्तीय परिणामों का सार

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त अर्धवार्षिक	समाप्त तिमाही
		9/30/2023 (अनअंकेषित)	9/30/2023 (अनअंकेषित)	9/30/2023 (अनअंकेषित)
1	परिचालन से कुल आय	52.71	83.18	6.27
2	अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पहले)	38.50	59.33	(0.51)
3	कर से पहले अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	38.50	59.33	(0.51)
4	कर के बाद अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	28.49	43.90	(0.38)
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए शामिल लाभ/(हानि) (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)] संदर्भ नोट नं. 2)	21.26	36.67	26.05
6	घुसका शेयर पूंजी (सममूल्य ₹ 10/-)	280.25	280.25	280.25
7	रिजर्व (सिविलियन रिजर्व को छोड़कर जैसा कि पिछले वर्ष के अंकेषित तुलन पत्र में दर्शाया गया)			
8	प्रति शेयर आय [सममूल्य ₹ 10/- प्रति शेयर] (संचालन जारी एवं बंद करने के लिए)	1.02	1.57	(0.01)
	मूल:	1.02	1.57	(0.01)
	तरल:	1.02	1.57	(0.01)

टिप्पणीय:

- 30 सितम्बर, 2023 को समाप्त उपरोक्त तिमाही एवं अर्धवार्षिक के अनअंकेषित वित्तीय परिणामों का विस्तारित प्रारूप सार सेबी (सूचीबद्धता दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल किये गये। उपरोक्त अनअंकेषित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप कंपनी की वेबसाइट ([www.durgeshmerchantsltd.com](http://www.durgeshmerchantsltd.com)) पर उपलब्ध है।
- कंपनी ने 1 अप्रैल, 2016 से भारतीय लेखा मानक ("आईएनडी एएस") को अपनाया है और तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित साथ में पठित प्रारंभिक नियमों एवं उसके तहत भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धान्तों के अनुसार ये वित्तीय परिणाम आईएनडी एएस 34 "अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग" में निर्धारित मान्यता और सिद्धान्तों के अनुसार तैयार किये गये हैं।

बोर्ड की ओर से  
दुर्गेश मर्चेन्ट्स लिमिटेड  
हस्ता/—  
रोहित आहुजा  
(प्रबन्ध निदेशक)

स्थान: नई दिल्ली  
तिथि: 08.11.2023

## नेस्ले इंडिया लिमिटेड

(CIN : L15202DL1959PLC003786)  
पंजीकृत कार्यालय: 100 / 101, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली - 110 001  
ईमेल: [investor@in.nestle.com](mailto:investor@in.nestle.com), वेबसाइट: [www.nestle.in](http://www.nestle.in), फोन: 011-23418891

## पोस्टल बिलेट / ई-वोटिंग की सूचना

सदस्यों को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110, 108 एवं समान्य प्रयोज्य प्रावधानों, यदि कोई हो, ("अधिनियम"), कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 22 तथा नियम 20, के साथ पठित, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिचय 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, 9/2023, दिनांक 25 सितंबर 2023 अन्य प्रारंभिक संकूलर ("एमएसए परिपत्रों"), सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग)) बाध्यकारक प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ("आई.सी.एस.आई.") द्वारा जारी सामान्य बिलेटों के संबन्धित मानक ("एमएसए-2") के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के पोस्टल बिलेट नोटिस, दिनांक 19 अक्टूबर 2023 व्याख्यात्मक बकल्प के साथ ("सूचना"), 7 नवम्बर 2023 को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के माध्यम से कंपनी के उन सभी सदस्यों को प्रेषण का काम पूरा कर लिया है जिनका ईमेल पता 1 नवम्बर 2023 ("कट-ऑफ डेट") पर कंपनी के या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत है। पोस्टल बिलेट नोटिस और पोस्टल बिलेट प्रपत्र की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता को संबंधित एमएसए परिपत्रों के माध्यम से स्थगित कर दिया गया है।

एतद्वारा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

- कंपनी के इन्विटी शेयरों के उप-विभाजन/विभाजन के लिए, जैसे कि 1 (एक) इन्विटी शेयर जिसका अंकित मूल्य ₹ 10/- (केवल एक रूपये) प्रत्येक, पूर्णतः भुगतान किया हुआ, एक रूपये के अंकित मूल्य वाले 10 (दस) इन्विटी शेयरों में, ₹ 1/- (केवल एक रूपये) उप-विभाजित किया जाएगा। कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के खंड 5 में परिवर्तन द्वारा, ₹ 1/- (केवल एक रूपये) प्रत्येक, पूर्णतः भुगतान किया गया से संबंधित विशेष कार्य, जैसा कि पोस्टल बिलेट नोटिस में निर्धारित किया गया है, नेशनल सिंक्रोनाइज्ड डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान किए गए रिमोट ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों ("रिमोट ई-वोटिंग") से मतदान करके किया जाना है;
- ई-वोटिंग की अवधि गुरुवार, 9 नवम्बर 2023 को सुबह 9:00 बजे (भा.मा.स.) शुरू होगी और शुक्रेवार, 8 दिसंबर 2023 को शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.) पर समाप्त होगी। इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग मांड्यूल एनएसडीएल द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा और उस समय के बाद मतदान की अनुमति नहीं होगी। एक बार सदस्य द्वारा किसी संकेत पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी;
- केवल उन्हीं सदस्यों को संकेत पर वोट डालने का अधिकार है, जिनके नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में कट-ऑफ डेट को अंकित है;
- जिन सदस्यों को सूचना नहीं मिली है वे [investor@in.nestle.com](mailto:investor@in.nestle.com) पर लिख कर इसे प्राप्त कर सकते हैं; और इलेक्ट्रॉनिक साधनों के मतदान से जुड़ी किसी भी प्रश्न या शिकायत के लिए, सदस्य [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) के डाउनलोड अनुभाग में सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) तथा ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका का उल्लेख कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 022-4886 7000 और 022-2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं, या सूत्री, परलवो म्हात्रे, वरिष्ठ मैनेजर, एनएसडीएल को चॉथी मंत्रालय, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लॉअर परल, मुंबई - 400013, निर्धारित ईमेल आईडी [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर संपर्क करें, जो इलेक्ट्रॉनिक साधनों से मतदान से जुड़ी शिकायतों का समाधान भी करेगी। सदस्य कंपनी सचिव को ईमेल आईडी [investor@in.nestle.com](mailto:investor@in.nestle.com) पर भी लिख सकते हैं।
- जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता कंपनी या उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, ईमेल के पंजीकृत/अपडेट प्रक्रिया पूरी करने के लिए वह नीचे दिये गए चरणों का पालन कर सकते हैं:
  - भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, ISR-1 में विधिवत पूरे हुए और हस्ताक्षरित अनुमति पत्र के साथ आधार से जुड़े पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति और किसी भी दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पत्र, पासपोर्ट आदि) की स्व-सत्यापित प्रति और ISR-1 में निर्धारित ऐसे अन्य दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रति ईमेल के माध्यम से [investor@in.nestle.com](mailto:investor@in.nestle.com) पर प्रस्तुत करें तथा इसके बाद कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में डाक के माध्यम से उसी की भौतिक प्रति अनिवार्य रूप से भेजकर; अपने ई-मेल पते को पंजीकृत/अपडेट करवा सकते हैं।
  - डॉमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपना ईमेल पता अपडेट कर सकते हैं।

कंपनी ने उन सभी सदस्यों को रिमाइंडर भेजा है जिन्होंने कंपनी डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपना KYC पूरा नहीं किया है। SEBI संकूलर के अनुसार, शेयरों को भौतिक रूप में धारण कर रहे सदस्यों को एक बार फिर से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने KYC 31 दिसंबर 2023 तक पूरा करें, ताकि उन्हें अपने इन्विटी शेयरों पर कॉर्पोरेट लाभ प्राप्त करने का आम भी अधिकार रहे, जिसमें इन्विटी शेयरों के उपविभाजन/विभाजन के बाद नई शेयर प्रमाणपत्रों की प्राप्ति शामिल है। सदस्य अपने KYC विवरण पूरा करने के लिए जारी पोस्टल बिलेट नोटिस दिनांक 19 अक्टूबर 2023 को नोटस का संदर्भ ले सकते हैं।

यह सूचना कंपनी की वेबसाइट [www.nestle.in](http://www.nestle.in) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), बीएसई लिमिटेड [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और एनएसडीएल [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) को वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

पोस्टल बिलेट का परिणाम सोमवार, 11 दिसंबर 2023 तक घोषित किया जाएगा और कंपनी की वेबसाइट [www.nestle.in](http://www.nestle.in) पर खानबनकर्ता की रिपोर्ट के साथ घोषित किया जाएगा तथा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीएसई लिमिटेड और एनएसडीएल को सूचित किया जाएगा।

नेस्ले इंडिया लिमिटेड  
प्रमोद कुमार राय  
कंपनी सचिव

तिथि: 8 नवंबर 2023  
स्थान: गुरुग्राम

## श्री गंग इंडस्ट्रीज एण्ड एलायड प्रॉडक्ट्स लिमिटेड

CIN: L11011UP1989PLC011004  
पंजी. कार्यालय: प्लॉट नं. 0, बी-2/6 और 27, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया,  
सैफिया फेज IV, जिला. हरदोई-241204 (यूपी)

वेबसाइट: [www.shrigangindustries.com](http://www.shrigangindustries.com) ईमेल आईडी: [secretarial@shrigangindustries.com](mailto:secretarial@shrigangindustries.com)

30 सितम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अनअंकेषित वित्तीय परिणाम

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30.09.2023 (अनअंकेषित)	समाप्त छमाही 30.09.2023 (अनअंकेषित)	समाप्त तिमाही 30.09.2023 (अनअंकेषित)	समाप्त वर्ष 31.03.2023 (अनअंकेषित)
1.	प्रतिचालन से कुल आय (शुद्ध)	7907.76	16077.98	2753.60	13,925.20
2.	सामान्य क्रियाकलापों से शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	373.00	1352.46	166.47	960.41
3.	कर से पूर्व लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	373.00	1352.46	166.47	960.41
4.	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	396.20	1125.65	166.47	1,315.99
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय	396.20	1125.65	166.47	1,315.30
6.	इन्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य ₹ 10/- प्रति)	1,793.00	1,793.00	1,793.00	1,793.00
7.	आरक्षित (पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त को छोड़कर)	0.00	0.00	0.00	(6,269.30)
8.	आय प्रति शेयर (सम मूल्य ₹. 10/- प्रति) असाधारण मदों से पूर्व एवं बाद - मूल एवं तरल (तिमाही के लिए वार्षिकीकृत नहीं)	2.21	6.28	0.98	8.65

टिप्पणी

- उपरोक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा, लेखापरीक्षण सभित द्वारा की गयी थी तथा तत्पश्चात् निदेशक मंडल द्वारा 08 नवम्बर, 2023 को आयोजित अपनी संबंधित बैठकों में इनका अनुमोदन किया गया।
- इन वित्तीय परिणामों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (संशोधितानुसार) (आईएनडी एएस) तथा विस्तारित प्रयोज्य अन्य मान्यताप्राप्त लेखांकन पद्धतियों एवं नीतियों के अनुसार तैयार किया गया है।
- कंपनी के पास दो व्यावसायिक खण्डवार हैं - एडिबल ऑयल प्रचालन तथा सिकर प्रचालन और खण्डवार परिणाम, परिसंपत्तियां व देनदारियां तदनुसार प्रस्तुत किये गये हैं।
- वर्तमान तिमाही की समयावधि के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 की पूर्ववर्ती तिमाहियों में यथा कंपनी की वनस्पति/रिफाईंड ऑयल मूल्य में कोई भी उतपादन नहीं हुआ था।
- पूर्ववर्ती अवधियों के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के अनुरूप तुलनायोग्य बनाने के लिये पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

बोर्ड के आदेश से  
श्री गंग इंडस्ट्रीज एण्ड एलायड प्रॉडक्ट्स लिमिटेड  
हस्ता./—  
सैवद अजीजुर रहमान  
निदेशक

स्थान: नई दिल्ली  
तिथि: 08.11.2023

## PRISM MEDICO AND PHARMACY LIMITED

Registered office: Suketi Road, Kala Amb, Sirmaur, Himachal Pradesh-173030  
CIN: L24100HP2002PLC009299; Website: [www.prismmedico.in](http://www.prismmedico.in)  
Email ID: [investorgrievancewmc@gmail.com](mailto:investorgrievancewmc@gmail.com)

## EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (PROVISIONAL) FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED ENDED 30.09.2023

Sr. No.	Particulars	Quarter ended			Year to date		Year ended
		(Unaudited) Reviewed	(Unaudited) Reviewed	(Unaudited) Reviewed	(Unaudited) Reviewed	(Audited) Reviewed	
1.	Total income from operations (Net)	4.33	1.63	0.00	5.96	127.23	
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-5.43	-0.89	-2.18	-14.33	-10.22	
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-5.43	-0.89	-2.18	-14.33	-10.22	
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-5.43	-0.89	-2.22	-14.33	-7.63	
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	-5.43	-0.89	-2.22	-14.33	-7.63	
6.	Equity Share Capital	606.34	606.34	606.34	606.34	606.34	
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	895.48	900.91	639.17	895.48	909.81	
8.	Earning per share (before extraordinary items) (Face Value of Rs. 10/- each) Basic & Diluted	-0.0009	-0.0015	-0.0004	-0.0024	-0.0013	
9.	Earning per share (after extraordinary items) (Face Value of Rs. 10/- each) Basic & Diluted	-0.0009	-0.0015	-0.0004	-0.0024	-0.0013	

Notes:-

- The above results are as per Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 as amended and have been taken on record by Board of Directors at its meeting held on 08.11.2023 after being reviewed by the Audit Committee. 2. This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
- The company is having single segment in accordance with IND AS 108 "operating segments", and therefore segment reporting is not applicable to the company.

For and on behalf of Board  
Sd/-  
Davender Singh  
Director (DIN: 09447213)

Place: Kala Amb  
Dat: 8.11.2023

## MODERN INSULATORS LIMITED

CIN: L31300RJ1982PLC002460  
Regd. Office: Talhethi, Village Karoli, Tehsil Abu Road, Dist. Sirahi - 307510, Tel.: 02974-228044.  
Email ID: [compliance@moderninsulators.com](mailto:compliance@moderninsulators.com), Website: [www.moderninsulators.com](http://www.moderninsulators.com)  
Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter & half year ended 30th September, 2023  
(\* In Lacs except EPS)

Particulars	Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended
	30.09.2023 (Unaudited)	30.06.2023 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	
Total Income from Operations	10618.75	8975.13	10044.97	19593.88	20121.08
Net Profit/(Loss) for the period before Tax	577.32	348.51	409.69	925.83	432.33
Net Profit/(Loss) for the period after Tax	616.08	395.51	475.22	1011.59	572.84
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period after tax and other comprehensive income after tax)	615.98	396.00	475.73	1011.98	574.21
Equity Share Capital	4714.39	4714.39	4714.39	4714.39	4714.39
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	-	-	-	-	34330.06
Earnings Per Share (Face Value of Rs. 10/- each)					
(a) Basic	1.31	0.84	1.01	2.15	1.22
(b) Diluted	1.31	0.84	1.01	2.15	1.22

## Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter &amp; half year ended 30th September, 2023 (\* In Lacs except EPS)

Particulars	Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended
	30.09.2023 (Unaudited)	30.06.2023 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	
Total Income from Operations	10618.75	8975.13	10044.97	19593.88	20121.08
Net Profit/(Loss) for the period before Tax	575.74	334.35	399.43	910.09	414.03
Net Profit/(Loss) for the period after Tax	614.50	381.35	464.96	995.85	554.54
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period after tax and other comprehensive income after tax)	614.40	381.84	465.47	996.24	555.91
Equity Share Capital	4714.39	4714.39	4714.39	4714.39	4714.39
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	-	-	-	-	34152.98
Earnings Per Share (Face Value of Rs. 10/- each)					
(a) Basic	1.30	0.81	0.99	2.11	1.18
(b) Diluted	1.30	0.81			



**इण्डियन ओवरसीज बैंक** Indian Overseas Bank (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) **E-Auction Notice**

RO: Lucknow CO: Chennai

**Date & Time of E-Auction-29.11.2023 from 11:00 AM to 3:00 PM, (With Auto extension of 10 minutes each till sale is completed)**  
**Last Date for submission of online application for BID with EMD-28.11.2023 upto 1:00 PM**

**E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES**  
Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) Mortgagee(s), Guarantor(s), Director(s) and Legal Heir(s) that the below described Immovable Property Mortgaged/charged to the Secured Creditor, the constructive possession of which has been taken by the Authorized Officer of Indian Overseas Bank (Secured creditor), will be sold on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS" on above mentioned date of sale, for recovery of mentioned below amount & future interest and other charges due to the Indian Overseas Bank (Secured creditor) from mentioned Borrower(s) Mortgagee(s), Guarantor(s), Director(s) and Legal Heir(s). The reserve price and earnest money deposit amount is mentioned below. The sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the Web Portal <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi>.

Branch : Barra Branch, Kanpur, 59-MIG, Hemant Vihar, Sector-04, Bhoot Bangla Road, Barra-2, Kanpur-208027, Ph. No. 0512-2616266, 2616318, Email: iob1786@iob.in

Sl. No.	Name & Address of Borrower/ Mortgagee/Guarantors	Description of Immovable properties	Outstanding Amount	Reserve Price	
				EMD Bid Increase Amt.	Reserve Price
1.	<b>Borrower:-M/s. K. K. Traders (Firm), Prop. Mr. Kishan Kumar Mishra S/o Mr. Omkar Nath Mishra,</b> Address: 3A/462, Awasthis, Hanspuram, Naubasta, Kanpur-208021 <b>Guarantor:-Mr. Ashish Mishra S/o Mr. Prabhakar Mishra, R/o 4E/415, Awasthis, Hanspuram, Naubasta, Kanpur-208021.</b>	Residential Plot No. L-243 (Part), Yojana No. E-4, Block Phase 04, Deendayalpuram, EWS Awasthis Vikas Scheme, Naubasta, Kanpur-208021. <b>Owned by Mr. Kishan Kumar Mishra, Admeasuring 29.53 sq. mtrs, Boundaries as per sale deed:- East: Part of Plot No. 243 LIG, West: Plot No. 244, LIG, North: 7.5 MTRS Wide Road, South: Plot No. 9 and 10 LIG</b>	<b>Rs. 20,68,375/-</b> as on 06.11.2023 +further interest at contractual rates and rests, Charges etc	<b>Rs. 5,02,000/-</b>	<b>Rs. 50,200/-</b>
2.	<b>Borrower:- M/s. P. S. Construction (Firm), Prop. Mr. Ashish Mishra S/o Mr. Prabhakar Mishra, Address: 4E/415, Awasthis Vikas Yojana-2, Hanspuram, Naubasta, Kanpur-208021 <b>Guarantor:- Mr. Kishan Kumar Mishra S/o Mr. Omkar Nath Mishra, R/o 3A/462, Awasthis, Hanspuram, Naubasta, Kanpur-208021.</b></b>	Residential Plot No. L-243 (Part), Yojana No. E-4, Block Phase 04, Deendayalpuram, EWS Awasthis Vikas Scheme, Naubasta, Kanpur-208021. <b>Owned by Mr. Ashish Mishra, Admeasuring 29.53 sq. mtrs, Boundaries: East: Plot No. 242/LIG, West: Part of Plot No. 243, LIG, North: 7.50 mtrs wide road, South: Plot No. 10/LIG</b>	<b>Rs. 28,16,231/-</b> as on 06.11.2023 +further interest at contractual rates and rests, Charges etc	<b>Rs. 5,02,000/-</b>	<b>Rs. 50,200/-</b>

**Note: Both the properties will be sold jointly to the highest bidder.**

**EMD Remittance A/c Details-Indian Overseas Bank, A/c Name -Sarfaesi Sale Parking Account, A/c No. 17860113035001, IFSC Code: IOBA001786**

\*Bank's dues have priority over the Statutory dues.  
For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the service provider's link <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi> or bank's website <http://www.iob.in>.  
For Properties inspection or Participating in bid of the above properties for any clarification interested purchaser may contact above mentioned Branch Manager/Authorized Officer.

Date: 09.11.2023 Place: Kanpur Authorised Officer, Indian Overseas Bank

**KHANDELWAL EXTRACTIONS LIMITED**  
CIN: L24241UP1989PLC005282 - Regd. Office: 51/47, Naya Ganj, Kanpur-208 001

**EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2023 (Rs./Lacs)**

Sl. No.	Particulars	3 Months Ended 30.09.2023	Half Year Ended 30.09.2023	Corresponding 3 Months Ended 30.09.2022
1.	Total income from operations	19.49	38.53	17.72
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	9.26	20.39	7.93
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	9.26	20.39	7.93
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	9.26	20.39	7.93
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	9.26	20.39	7.93
6.	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- per share)	85.01	85.01	85.01
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-
8.	Basic & Diluted Earnings per share (of Rs. 10/- each) [For continuing and discontinuing operations] (Not Annualised) (in Rs.)	1.09	2.40	0.93

**Note:** The above is an extract of the detailed formal of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website: [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the Company's website: [www.khandelwalextractions.com](http://www.khandelwalextractions.com).

For and on behalf of the Board of Directors  
Dinesh Khandelwal  
Director (Finance) & CFO  
DIN: 00161831

Place: KANPUR  
Date: 08.11.2023

**SHRI GANG INDUSTRIES AND ALLIED PRODUCTS LIMITED**  
CIN: L11011UP1989PLC011004  
Regd. Office: Plot No. B-2/6 & 27, UPSIDC Industrial Area Sandia Phase IV, Dist. Hardoi- 241204 (UP)  
Website: [www.shrigangindustries.com](http://www.shrigangindustries.com) Email ID: [secretarial@shrigangindustries.com](mailto:secretarial@shrigangindustries.com)

**Unaudited Financial Results for the Quarter and half year ended September 30, 2023 (Rs. in Lacs)**

S. No	Particulars	Quarter ended 30.09.2023 (Unaudited)	Half year ended 30.09.2023 (Unaudited)	Quarter ended 30.09.2022 (Unaudited)	Year ended 31.03.2023 (Audited)
1	Total income from operations	7907.76	16077.98	2753.60	13,925.20
2	Profit / (Loss) from ordinary activities (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	373.00	1352.46	166.47	960.41
3	Profit / (Loss) before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	373.00	1352.46	166.47	960.41
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax	396.20	1125.65	166.47	1,315.99
5	Total Comprehensive Income for the period	396.20	1125.65	166.47	1,315.30
6	Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	1,793.00	1,793.00	1,793.00	1,793.00
7	Reserve (excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year)	0.00	0.00	0.00	(6,269.30)
8	Earnings per share (Face value of Rs. 10/- Each) Before and After Extraordinary items - Basic & Diluted (not annualised for the quarter)	2.21	6.28	0.98	8.65

**Note:**

- The above financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on November 08, 2023.
- These financial results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended) (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.
- The company has two business segments- Edible Oil Operations and Liquor Operations and segmentwise results, assets and liabilities are accordingly given
- During the current quarter as well as in the previous quarters of FY 2022-23, there was no production in the vanaspathi/refined oil unit of the company.
- Previous periods' figures have been regrouped/ re-arranged to make them comparable to current period.

By order of the Board  
For Shri Gang Industries And Allied Products Limited  
Sd/-  
Syed Azizur Rahman  
Director

Place: New Delhi  
Date: 08.11.2023

**ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ** Punjab National Bank

**PUBLIC NOTICE FOR BREAK OPEN LOCKER**

Be it known to all public at large that the following locker holder mentioned below has failed to make payment of their overdue locker rent despite several notices & reminders given by the Bank from time to time. Under these circumstances, the bank is constrained to break open such locker and hence it is hereby informed that the said locker will be broken on or after 08.02.2024 by the bank as per the banking rules and regulation in case the respective locker holder fails to make the payment of overdue rent of locker. If anyone has claim/ objection in respect of this said locker should contact the locker department of PNB, BO: Hazratganj, Halwasiya Lucknow and also contact branch at email: [bo0294@pnb.co.in](mailto:bo0294@pnb.co.in) on or before 08.02.2024. The detail of the locker to be break open is as under:

- Mr. Ajay Yadav, Amount Rent Due Rs. 12390/-, Locker No. HH246M1, Address-3/482 Sec-3, Jankipuram Lucknow-226021
- Mrs. Mohini Verma, Amount Rent Due Rs. 12390/-, Locker No. GG177M1, Address-12/71 Viram Khand Gomti Nagar, Lucknow-226010
- Mrs. Saroj Gulati, Amount Rent Due Rs. 12390/-, Locker No. AA17M1, Address-484 Hind Nagar Near Mamta Gas Service Kanpur Road, Lucknow-226012
- Mrs. Meena Asthana, Amount Rent Due Rs. 12390/-, Locker No. BW02805 Lucknow-Ganpat Bhawan, H.No. 8, faizabad Road, Near Samthar Petrol Pump Lucknow-226016
- Mrs. Rashmi Roshni, Amount Rent Due Rs. 19210/-, Locker No. AF00357 Address-20/204, River Bank Colony, Lucknow-226018
- Mr. Gaurav Bajpai, Amount Rent Due Rs. 36512/-, Locker No. AN00781 Address-B-137 Sec-B, Aliganj, Lucknow-226024
- Mrs. Saubita Mukherji, Amount Rent Due Rs. 12390/-, Locker No. BS02535 Address-Flat no. 12 Ram Ratan Bajpai Marg Narhi Lucknow-226001
- Mr Sandip Roy, Amount Rent Due Rs. 12390/-, Locker No. BQ02381 Address-283/65Kha/3 Harchandpur Garhi Kanora Manaknagar Lucknow-226006

above mentioned at Sl no. 1 to 3 lockers are shifted to Punjab National Bank, Branch Hazratganj, Halwasiya of e-IBC, 94 Mahatma Gandhi Marg, Lucknow.  
Dt: 08.11.2023, Lucknow Chief Manager

**इण्डियन ओवरसीज बैंक** Indian Overseas Bank (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) **E-Auction Notice**

RO: Lucknow CO: Chennai

**Date & Time of E-Auction-29.11.2023 from 11:00 AM to 3:00 PM, (With Auto extension of 10 minutes each till sale is completed)**  
**Last Date for submission of online application for BID with EMD-28.11.2023 upto 1:00 PM**

**E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF MOVABLE-IMMOVABLE PROPERTIES**  
Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) Mortgagee(s), Guarantor(s), Director(s) and Legal Heir(s) that the below described Movable-Immovable Property Mortgaged/charged to the Secured Creditor, the constructive possession of which has been taken by the Authorized Officer of Indian Overseas Bank (Secured creditor), will be sold on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS" on above mentioned date of sale, for recovery of mentioned below amount & future interest and other charges due to the Indian Overseas Bank (Secured creditor) from mentioned Borrower(s) Mortgagee(s), Guarantor(s), Director(s) and Legal Heir(s). The reserve price and earnest money deposit amount is mentioned below. The sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the Web Portal <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi>.

Sl. No.	Name & Address of Borrower/ Mortgagee/Guarantors	Description of Movable-Immovable properties	Outstanding Amount	Reserve Price	
				EMD Bid Increase Amt.	Reserve Price
1)	<b>Mr. Ravi Gupta &amp; Mrs. Archana Gupta,</b> Address: 136/174 Duvrijayganj Rajendra Nagar, Lucknow-226014	Equitable Mortgage of New House & Plot at Khasra No. 243, Situated at Fatehganj, ParganaKakori, Tehsil & District-Lucknow, (Near Corporation Bank, off Alam Nagar Road), Measurement:-Total measuring area: 1861.53 sqmtr. (2030 Sq.ft.) Boundaries as per partition deed:- There are three portion of the land <b>Owned by Mr. Rajeev Gupta</b> Portion No. 1 of the land (Area 4096sqft):-East: Road, West- Portion No. 283, North-Pond (Talab).	<b>A/c of M/s United Book Distributing Co. O/s Rs. 26,62,405.26</b>	<b>Rs. 1,91,63,700/-</b>	<b>Rs. 19,16,370/-</b>
2)	<b>M/s New Gupta Book Depot, Prop: Ravi Gupta,</b> Address-Shop No.2 Aman Plaza C/71 Rajajipuram Lucknow-226017	Equitable Mortgage of Shop No. 2 on Ground Floor, Aman Plaza (Aman Complex), Plot No. C-7/1 at C-Block GoleChauraha, Kothan Bandhu Road, Rajajipuram, Lucknow-226017. <b>Owned by Late Smt. Krishna Gupta W/o Sri, Chandrika Prasad Gupta, Admeasuring 10.098 sq.Mtrs., Boundaries:-East- FCI Godown, West- Road about 36 mtr wide, North-Shop No. 01, South-Shop No. 03,</b>	<b>Total O/s Rs. 1,48,36,683.45</b> as on 31.10.2023 +further interest at contractual rates and rests, Charges etc.	<b>Rs. 15,45,300/-</b>	<b>Rs. 1,54,530/-</b>
3)	<b>Mr. Ravi Gupta (Proprietor- New Gupta Book Depot), Address: 136/174 Duvrijayganj Rajendra Nagar, Lucknow-226014.</b>	<b>Portion No. 3 of the land (Area 8012 sqft):- East- Portion No. 1, West- Road, North-Portion No. 2, South- Other's land</b>	<b>A/c of Mr. Rajeev Gupta O/s Rs. 51,42,718.44</b>		
4)	<b>M/s United Book Distributing Co., Prop: Mrs. Archana Gupta, Address:- IInd Floor Aman Plaza C Block GolChauraha, Rajajipuram Lucknow-226017</b>	<b>Note: The above mentioned property no. 1 also Mortgage in the housing loan a/c of Mr. Rajeev Gupta in Indian Overseas Bank, Moti Nagar Branch.</b>	<b>A/c of M/s New Gupta Book Depot O/s Rs. 25,90,645.76</b>		
5)	<b>Mrs. Archana Gupta (Proprietor- United Book Distributing Co.), Address: 136/174 Duvrijayganj Rajendra Nagar, Lucknow-226014</b>	<b>South-Land others</b>	<b>A/c of Mr. Ravi Gupta &amp; Mrs. Archana Gupta O/s Rs. 51,42,718.44</b>		
6)	<b>Mr. Rajeev Gupta S/o Mr. Chandrika Prasad,</b> Address:- 136/174 Duvrijayganj Rajendra Nagar, Lucknow-226014	<b>Owned by Mr. Rajeev Gupta-Boundaries of Portion No. 2 of the land (Area 8012 sqft):-East- Portion No. 1, West- Road, North-Talab, South-Portion No. 3</b>	<b>A/c of Mr. Rajeev Gupta O/s Rs. 44,40,913.99</b>		
7)	<b>Mr. Rajeev Gupta (Mortgagor &amp; Guarantor), S/o Mr. Chandrika Prasad,</b> Address:-136/174 Duvrijayganj Rajendra Nagar, Lucknow-226014	<b>Owned by Mr. Ravi Gupta-Boundaries of Portion No. 3 of the land (Area 8012 sqft):- East- Portion No. 1, West- Road, North-Portion No. 2, South- Other's land</b>	<b>A/c of Mr. Rajeev Gupta O/s Rs. 44,40,913.99</b>		
8)	<b>Mr. Ravi Gupta (Mortgagor &amp; Guarantor), Address: 136/174 Duvrijayganj Rajendra Nagar, Lucknow-226014.</b>	<b>Note: The above mentioned property no. 1 also Mortgage in the housing loan a/c of Mr. Rajeev Gupta in Indian Overseas Bank, Moti Nagar Branch.</b>			
9)	<b>Late Smt. Krishna Gupta W/o Sri. Chandrika Prasad Gupta (Through Legal Heir's)(Mortgagor), Address: 136/174 Duvrijayganj Rajendra Nagar, Lucknow-226014</b>	<b>Equitable Mortgage of Shop No 2 on Ground Floor, Aman Plaza (Aman Complex), Plot No. C-7/1 at C-Block GoleChauraha, Kothan Bandhu Road, Rajajipuram, Lucknow-226017. <b>Owned by Late Smt. Krishna Gupta W/o Sri, Chandrika Prasad Gupta, Admeasuring 10.098 sq.Mtrs., Boundaries:-East- FCI Godown, West- Road about 36 mtr wide, North-Shop No. 01, South-Shop No. 03,</b></b>			
10)	<b>Mr. Ravi Gupta (Guarantor), (Son/Legal Heir of Late Krishna Gupta), Address: 136/174 Duvrijayganj Rajendra Nagar, Lucknow-226014</b>	<b>South-Land others</b>			
11)	<b>Mr. Rajeev Gupta (Guarantor) (Son/Legal Heir of Late Krishna Gupta), Address: 136/174 Duvrijayganj Rajendra Nagar, Lucknow-226014.</b>	<b>Owned by Mr. Rajeev Gupta-Boundaries of Portion No. 2 of the land (Area 8012 sqft):-East- Portion No. 1, West- Road, North-Talab, South-Portion No. 3</b>			
12)	<b>Mr. Neeraj Gupta (Guarantor), (Son/Legal Heir of Late Krishna Gupta), Address: 136/174 Duvrijayganj Rajendra Nagar, Lucknow-226014</b>	<b>Owned by Mr. Ravi Gupta-Boundaries of Portion No. 3 of the land (Area 8012 sqft):- East- Portion No. 1, West- Road, North-Portion No. 2, South- Other's land</b>			
13)	<b>Mr. Chandrika Prasad Gupta (Guarantor), (Husband/Legal Heir of Late Krishna Gupta), Address: 136/174 Duvrijayganj Rajendra Nagar, Lucknow-226014</b>	<b>Note: The above mentioned property no. 1 also Mortgage in the housing loan a/c of Mr. Rajeev Gupta in Indian Overseas Bank, Moti Nagar Branch.</b>			
14)	<b>Mrs. Reema Shah W/o Mr. Rahul Shah(Guarantor) (Daughter/Legal Heir of Late Krishna Gupta), Address: 372/20 KA, SamrahiChoki Road, Sadatganj, Lucknow-226003.</b>	<b>Equitable Mortgage of Shop No 2 on Ground Floor, Aman Plaza (Aman Complex), Plot No. C-7/1 at C-Block GoleChauraha, Kothan Bandhu Road, Rajajipuram, Lucknow-226017. <b>Owned by Late Smt. Krishna Gupta W/o Sri, Chandrika Prasad Gupta, Admeasuring 10.098 sq.Mtrs., Boundaries:-East- FCI Godown, West- Road about 36 mtr wide, North-Shop No. 01, South-Shop No. 03,</b></b>			

**EMD Remittance A/c Details-Indian Overseas Bank, A/c Name -SARFAESI SALE PARKING ACCOUNT, A/c No. 17830113035001, IFSC Code: IOBA001783**

\*Bank's dues have priority over the Statutory dues.  
For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the service provider's link <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi> or bank's website <http://www.iob.in>.  
For Properties inspection or Participating in bid of the above properties for any clarification interested purchaser may contact above mentioned Branch Manager/Authorized Officer.

Date: 06.11.2023 Place: Lucknow Authorised Officer, Indian Overseas Bank

**ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ** Punjab National Bank **Circle Sastra Centre, Circle Office Alahadpur, Gorakhpur 273001**  
Phone: 0551-2334830, E-mail: [cs229@pnb.co.in](mailto:cs229@pnb.co.in)

**POSSESSION NOTICE (For Movable/Immovable Property)**

Whereas, Punjab National Bank/ the Authorized Officer of Punjab National Bank under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under Section 13 read with the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notices on the dates mentioned against each account calling upon the respective borrowers to repay the amount as mentioned against each account within 60 days from the date of receipt of the said notice(s). The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of Section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002. The Borrowers/Guarantors/Mortgagor's attention is invited to provisions of sub section (8) of Section 13 of the act in respect of time available to redeem the secured assets. The borrower/s in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealing with the property/ies will be subject to the charge of Punjab National Bank for the amounts and interest thereon.

Sr. No.	(1) Branch Name	Description of the Mortgaged Property/ Hypothecated Property	Date of Demand Notice Possession Notice Date	Amount Outstanding as mentioned in Demand Notice
1.	<b>(1) Branch- Padrauna eOBC, Kushinagar (143110)</b> <b>(2) Borrower- Proprietor/ Guarantor/ Mortgagee Name</b>	All that part and parcel of the property situated at Arazi no. 1208, Mauza- Jungle Belwa, Tappa- Chaura Badagawn, Pargana- Sidhuwa Jobna, Tehsil- Padrauna, Distt- Kushinagar, measuring total land area 0.032 hectare. <b>In the name of Sh Basant Kumar Gupta, Sh Manoj Kumar Gupta &amp; Sh Amar Kumar Gupta S/o Late Sh Lali Sahu, mortgaged through registered sale deed no 2005/2008 dated 25.06.2008. Boundaries (As per deed)- East- Road, West- Land of Dharmendra, North- Land of Deepak Yadav, South- Land of Ashok Kumar.</b>	24.07.2023 04.11.2023	<b>Rs. 2,99,949.36</b> (Rupees two lakh ninety nine thousand ninety nine hundred forty nine and paise thirty six only) as on 30.06.2023 + int. & other charges, less recovery if any w.e.f. 01.07.2023
2.	<b>(1) Branch- Hata, Kushinagar (489200)</b> <b>(2) Borrower- Mohammed Istikhar S/o Alisher, Guarantor/ Mortgageor- Smt. Rakibun Nisha W/o Alisher.</b>	All that part and parcel of property consisting of land and building measuring area 202.5 sqmt. situated at Arazi No. 1071, Mauza- Hata Khas, Tappa- Bachhauil, Pargana- Shahjahanpur, Tehsil-Hata, Distt.- Kushinagar, in the name of Smt. Rakibun Nisha W/o Sh Alisher acquired through sale deed no. 377/2010 dated 28.01.2010. <b>Boundaries (As per deed)- East- Land of Shabnam Jamal &amp; Asma, West- Land of Imtiyaz, North- Road, South- Land of Shabnam Jamal &amp; Asma.</b>	18.08.2023 04.11.2023	<b>Rs. 4,39,447.25</b> (Rupees four lakh Thirty Nine thousand four hundred forty seven and paise twenty five only) as on 31.07.2023 + int. & other charges, less recovery if any w.e.f. 01.08.2023
3.	<b>(1) Branch- Kasia, Kushinagar (387500)</b> <b>(2) Borrower- M/s Rani Sadi Sansar, Proprietor- Sh Birendra Bind S/o Sh Bramhdev, Guarantor Sh Ramesh Giri S/o Tapasi Bhatti, Mortgageor- Smt Asha Devi W/o Sh Vinendra Kashyap &amp; Smt. Sarita Devi W/o Sh Ravindra</b>	(1) All that part and parcel of the property situated at Arazi No. 558, Mauza- Belwa Palakdhari Singh, Tappa- Mainpur, Pargana- Sidhuwa Jobna, Tehsil- Kasia, Distt- Kushinagar, measuring total land area 0.012 Hectare i.e. 120 sqmt. <b>In the name of Smt. Asha Devi W/o Vinendra mortgaged through registered sale deed no 3964/2013 dated 28.10.2013. Boundaries (As per deed)- East- Road, West- Land of Ganesh, North- Land of Buddhiram, South- Land of Rampravesh.</b> (2) All that part and parcel of the property situated at Arazi No. 558, Mauza- Belwa Palakdhari Singh, Tappa- Mainpur, Pargana- Sidhuwa Jobna, Tehsil- Kasia, Distt- Kushinagar measuring total land area 0.012 Hectare i.e. 120 sqmt. in the name of Smt. Sarita Devi W/o Sh Ravindra mortgaged through registered sale deed no 3965/2013 dated 28.10.2013. <b>Boundaries (As per deed)- East- Road, West- Land of Ganesh, North- Land of Asha Devi, South- Land of Ram Lakhari.</b>	08.08.2023 04.11.2023	<b>Rs. 6,88,413.00</b> (Rupees six lakh eighty eight thousand four hundred thirteen only) as on 31.07.2023 + int. & other charges, less recovery if any w.e.f. 01.08.2023

Date: 09.11.2023 Place: Gorakhpur Chief Manager: Authorized Officer, Punjab National Bank

**"IMPORTANT"**

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

**SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED** (formerly Fullerton India Credit Company Limited)  
Corporate Office: 10th Floor, Office No. 101, 102 & 103, 2 North Avenue, Maker Masdar, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051.

**SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES**

E-Auction Sale Notice of 30 days for Sale of Immovable Asset(s) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to rule 8 and 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable properties mortgaged/charged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorized Officer of SMFG India Credit Co. Ltd. (Formerly Fullerton India Credit Co. Ltd.)/Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 15/12/2023 at 11:00 am to 01:00 pm (with unlimited extensions of 5 minute each), for recovery of Rs. 39,02,987/- (Rupees Thirty Nine Lakh Two Thousand Nine-hundred And Eighty Seven Only) due as on 08/09/2021 and further interest and other expenses thereon till the date of realization, due to Fullerton India Credit Company Limited/Secured Creditor from the Borrowers and Guarantor(s) namely 1) FERDZE KUMAR, 2) PINKI RANI.

The reserve price will be Rs. 89,26,528/- (Rupees Eighty Nine Lakh Twenty Six Thousand Five Hundred Twenty Eight Only) and the earnest money deposit will be Rs. 8,94,653/- (Rupees Eight Lakh Ninety Four Thousand Six Hundred Fifty Three Only). The last date of EMD deposit is 14.12.2023. For further details please contact at Satnam Singh (Satnam.Singh@smfgindia.com) + 91 8655990348 & Harmani Jolly (Harmani.Jolly@fullertonindia.com) + 91 8655901470.

Description of Immovable Property: ALL THAT PART AND PARCEL OF THE IMMOVABLE PROPERTY BEARING H. NO. 854-B, GALI NO. 12, GOL GAJA CHOWNK, TRIPURI TOWN PATIALA, PUNJAB 147001. BOUNDED AS:- EAST : ROAD 13.10 FT, WEST : OTHER HOUSE 13.10 FT, NORTH : OTHER 77 FT, SOUTH: OTHER 77 FT.

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Fullerton India Credit Company Limited/Secured Creditor's website i.e. [www.smfgindia.com/](http://www.smfgindia.com/) <https://smfgindia.auctiontiger.net>.

Place: Patiala Date: 09.11.2023 SD/-, Authorised Officer.  
SMFG India Credit Company Limited (formerly Fullerton India Credit Co. Ltd.)

**यूनियन बैंक** Union Bank of India

**REGIONAL OFFICE-KARNAL, 1ST FLOOR, ASA RAM, MARKET MODEL TOWN, KARNAL**

**E-AUCTION SALE NOTICE**  
Ref: ROK-SARF:2022-23 Date: 08.11.2023

Notice is hereby given to the public in general and to the Borrower/s and Guarantor/s in particular by the Authorized Officer, that the under mentioned properties mortgaged to Union Bank of India, take possession under the provision of Section 13(4) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, will be sold by E- Auction as mentioned below for recovery of under mentioned dues and further interest, charges and costs etc, as detailed below.

The property is being sold on "AS IS, WHERE IS, WHATEVER THERE IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS" as such sale is without any kind of warranties and indemnities.

The under mentioned properties will be sold by "Online E-Auction through the website www.mstcecommerce.com on 29.11.2023 for recovery of bank's dues as mentioned below together with interest and other expenses:

Sr. No.	Name of the Borrower	Description of the property	Reserve price & Earnest money deposit (EMD)	Debt due	A/c No. / IFSC / Branch for EMD deposit	Bid Increment Amount	Type Of Possession
1.	Mr. Vikram Singh S/o Balbir Singh Villi-Shamshipur PO-Kirnach Kurukshetra, Haryana	All the piece and parcel of property situated at Plot No. 16, measuring 2½ Marla being 5/362 share of land measuring 9K-1M comprised in kshwat No.280/283, Khatoni No. 436, Rect No.17, 136119. (Borrower & Mortgageor)	Reserve price Rs. 23.80 lacs EMD Rs. 2.38 lacs	Rs 10,81,523.16 as on 30.09.2023 with further interest, cost & expenses	A/c- 535401980050000 of Union Bank of India, GNS Kurukshetra, IFSC code UBIN0553549	Rs. 23,800/-	PHYSICAL
2.	M/S DAILY FOODS INDUSTRIES through its prop. SANJEET S/O KARAM SINGH ADD: P-21 HSIDC Sonapat, Haryana, Pin- 131001. (Borrower)	All the piece and parcel of urban plot measuring 125 sq yards out of 227 sq yards with dimensions East to West 66' North to South 31' falling in Khasra nos 8649/2504/1/10 (0-5) situated in the revenue estate of Sonapat Patti Mussalman now known as Jeevan Vihar within MC Limits of Sonapat. owned by Mr Sandeep Kumar S/o Sh Naresh Gehlot. The property is bounded as under North - Plot of Geeta, South - House of Naresh, East - House of Dharamvir, West - Galli.	Reserve price Rs 25.43 lacs EMD Rs. 2.54 lacs	Rs 31,12,305.27 as on 30.09.2023 with further interest, cost & expenses	A/C- 186511980050000 of Union Bank of India, Kundli Ubi IFSC code UBIN01818658		